

पत्र संख्या:-मीडिया/सोशल मीडिया सेल (झाँसी) 30(05)/2021

दिनांक: 31-05-2021

सेवा में,

मुख्यालय श्रीमान् पुलिस महानिदेशक,

उ.प्र. लखनऊ

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन कानपुर के पत्रांक केजेड-सोशल मीडिया सूचना (प्रतिदिन)/2018/9136 दिनांक 24.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो प्रतिदिन सराहनीय कार्य/उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता की प्रेस नोट/आख्या भेजने विषयक है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 30.05.2021 की प्रेस नोट/आख्या निम्न सादर सेवा में प्रेषित है

I---

1.सराहनीय कार्य

दिनांक 30.05.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री रोहन पी कनय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक कुमार त्रिपाठी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम दिनांक 28.05.21 को कोट पुलिया के पास बरगढ रोड पर दिनेश यादव व उसकी पत्नी व भाभी के साथ मारपीट कर गले से सोने की चैन लूटने में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गयी सोने की चैन बरामद कर महज 24 घण्टे में खुलासा कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

घटना विवरण-

दिनांक 28.05.21 की रात्रि करीब 9.15 बजे दिनेश यादव पुत्र नवल किशोर निवासी बरगढ अपनी पत्नी व भाभी के साथ मोटर साईकिल से लहरगिर्द से त्रयोदशी के कार्यक्रम से बापस अपने गाँव बरगढ जा रहे थे तभी ग्राम कोट पुलिया के पास बदमाशों द्वारा उनकी मोटर साईकिल में डण्डा मारकर गिरा दिया गया था व उनके साथ मारपीट कर उनकी भाभी के गले से सोने की चैन लूट ली गयी थी थाना स्थानीय में दी गयी सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटना का अविलम्ब अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे प्राप्त आदेश के क्रम में उ0नि0 शंशाक मिश्रा मय हमराह पुलिस बल के लगातार प्राप्त साक्ष्य के क्रम में भ्रमणशील थे प्राप्त सूचना के क्रम में उन्नाव बाला जी पुल के पास घटना में संलिप्त अभि0 1.प्रदीप अहिरवार पुत्र वीर सिंह निवासी हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 2.रणवीर अहिरवार पुत्र स्व: दशरथ निवासी हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 3.आकाश बाल्मीकि पुत्र मुन्ना निवासी हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 4.शिवम अहिरवार उर्फ भूरा पुत्र संजय नि0 हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से लूटी गयी सोने की चैन बरामद की गयी गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभि0गण का विवरण –

1. प्रदीप अहिरवार पुत्र वीर सिंह निवासी हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 उम्र 19 वर्ष
 2. रणवीर अहिरवार पुत्र स्व: दशरथ निवासी हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 उम्र 21 वर्ष
 3. आकाश बाल्मीकि पुत्र मुन्ना निवासी हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 उम्र 20 वर्ष
 4. शिवम अहिरवार उर्फ भूरा पुत्र संजय नि0 हरिजन बस्ती उन्नाव बाला जी जिला दतिया म0प्र0 उम्र 18 वर्ष
- बरामदगी का विवरण:- एक अदद सोने की चैन कीमती 50 बजार रूपये
गिरफ्तारी का स्थान-उन्नाव बाला जी पुल के पहले
गिरफ्तारी का दिनांक- 30.05.21